



अंक 8, 12 जून 2017

संगठन संवाद पत्र

विस्तृत प्रवास, केरल

02, 03 और 04 जून 2017



अगली बार राजग सरकार



केरल प्रवास

02 जून 2017

(प्रातः 6:15 से रात्रि 11:30)



- 6:15** दिल्ली निवास से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 7:20** हवाई अड्डे से केरल के लिए प्रस्थान
- 10:20** कोचीन हवाई अड्डे पर आगमन पर प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन
- 10:25** मोटरसाइकिल जुलुस के साथ अर्नाकुलम सरकारी गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 11:20** अर्नाकुलम गेस्ट हाउस में दिन के कार्यक्रम पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा
- 12:20** केरल कोर ग्रुप के साथ बैठक में केरल प्रदेश में पार्टी की रणनीति पर विस्तृत चर्चा
- 2:25** होटल रेनाय के लिए प्रस्थान
- 3:00** होटल रेनाय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक एवं चर्चा
- 4:00** केरल स्थित विभिन्न चर्चों के विशप के साथ बैठक में इसाई समुदाय से संबंधित विषयों पर चर्चा
- 5:30** एजे हॉल अर्नाकुलम में जल-स्वराज वेबसाईट का अनावरण करके प्रबुद्ध वर्ग के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भाजपा की विचारधारा को मजबूती से रखा। प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हिंसक हमलों पर प्रदेश सरकार को घेरा
- 7:00** जिला पदाधिकारियों के साथ जिला कार्यालयों के निर्माण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा
- 7:35** स्थानीय समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार
- 8:15** कोचीन के गणमान्य लोगों के साथ भोजन पर चर्चा
- 9:20** स्थानीय समाचार चैनल से साक्षात्कार
- 10:00** राष्ट्रीय पत्रिका के साथ साक्षात्कार
- 10:45** गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 11:30** रात्रि विश्राम



03 जून 2017

(प्रातः 7:30 से रात्रि 11:45)



- 7:30** वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नाश्ते पर चर्चा
- 8:15** कोचीन हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 10:30** तिरुवंतपुरम हवाई अड्डे पर आगमन और कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनन्दन एवं मोटरसाइकिल जुलूस के साथ सरकारी गेस्ट हाउस के लिए प्रस्थान
- 11:55** सरकारी गेस्ट हाउस में आगमन
- 12:05** गेस्ट हाउस से होटल हायिस्थ में आगमन
- 12:15** होटल हायिस्थ में जिले स्तर एवं प्रदेश पदाधिकारियों के पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का प्रत्यक्ष संवाद
- 2:30** संघ परिवार के साथ बैठक
- 6:00** तिरुवंतपुरम के आर्च बिशप के निवास पर कई चर्चों के बिशप के साथ चर्चा
- 6:55** सुब्रमन्यम हॉल में आगमन और प्रबुद्ध जनों से संवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा और केंद्र सरकार द्वारा केरल के विकास में दिए जा रहे सहयोग पर उद्बोधन
- 8:20** होटल हायिथ्स में आगमन और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भोजन पर चर्चा
- 8:55** केरल के विभिन्न सामजिक, व्यावसायिक संगठनों के साथ बैठक में उनसे जुड़े विषयों पर चर्चा
- 9:30** गेस्ट हाउस में आगमन
- 9:40** वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ दिन के कार्यक्रमों पर चर्चा
- 11:45** रात्रि विश्राम



04 जून 2017

(प्रातः 7:00 से रात्रि 11:00)



- 7:00 केरल प्रदेश अध्यक्ष के साथ नाश्ते पर चर्चा
- 7:20 प्रदेश कार्यालय निर्माण कार्य का शुभारंभ
- 8:20 बूथ संख्या 95, चेन्नकलचूला में आगमन और कार्यकर्ता रथीस जी के निवास पर चाय पर बूथ समिति की बैठक
- 9:40 पंडित दीन दयाल उपाध्याय विस्तारक योजना में निकले विस्तारकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने संवाद करते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियों एवं कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण दिया
- 11:35 आईटी विभाग, मीडिया विभाग और चुनाव प्रबन्धन विभाग के द्वारा प्रस्तुति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन विभागों के रणनीतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया
- 1:00 वरिष्ठ संपादकों के साथ भोजन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा और केंद्र सरकार के कार्यों पर अनौपचारिक चर्चा की
- 2:45 प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनौपचारिक संवाद
- 3:35 विभिन्न प्रकल्पों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद और लक्ष्य निर्धारण
- 4:10 स्थानीय टीवी चैनल के प्रबंधकों के साथ अनौपचारिक चर्चा
- 5:00 केरल के गेस्ट हाउस में विभिन्न हिन्दू धर्मगुरुओं के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा
- 6:00 हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 7:00 दिल्ली के लिए प्रस्थान
- 11:00 दिल्ली आवास पर आगमन





भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 जून 2017 से 4 जून 2017 तक का तीन दिवसीय केरल विस्तृत प्रवास बेहद उपयोगी एवं पार्टी के हित में रहा है। इस दौरान श्री अमित शाह द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का परिणाम है कि केरल में पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत हुआ है। गुणात्मक दृष्टि से प्रवास की उपयोगिता कई मायने में बेहद अहम है। केरल में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास को पार्टी उपयोगी मान रही है।

- पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में वैसे तो राजग (NDA) को लगभग 10% की वृद्धि के साथ 16% मत पाए परन्तु सिर्फ एक सीट में जीत के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं में एक निराशा का माहौल था। इस प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केरल में भाजपा का चुनावी इतिहास देखते हुए पिछले चुनाव के परिणाम एक उत्साहवर्धक शुरुआत है और यदि पार्टी का ग्राफ इसी तरह से बढ़ा तो भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ अगले चुनाव में निश्चित रूप से 30-35% प्राप्त करेगी जो कि त्रिकोणात्मक मुकामबले में जिताऊ वोट होगा। उनके इस तर्क से पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह और भावी जीत के प्रति सकारात्मक भाव का संचार हुआ।
- केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं को एक लम्बे समय से वाम दलों द्वारा प्रायोजित हिंसा का सामना करना पड़ रहा है जो कि पिछले वर्ष वाम दलों की सरकार बनने के बाद अपने चरम पर पहुँच गया है। भाजपा अध्यक्ष ने अपने इस प्रवास के दौरान प्रदेश सरकार को इस दमनकारी काम के लिए कठघरे में खड़ा करने में सफलता पाई है। उन्होंने केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं को आश्वासन करने में सफलता पाई कि इस मुश्किल दौर में पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और केन्द्रीय नेतृत्व उनके पीछे चढ़ान की तरह खड़ा है।
- अपने इस प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केरल के कई बड़े और सम्माननीय कैथलिक धर्म गुरुवों से मुलाकात करके न सिर्फ उनकी समस्याओं को सुना बल्कि उन्हें केंद्र सरकार से यथोचित सहायता का भी आश्वासन दिया। उनके इस प्रयास से न सिर्फ केरल बल्कि सम्पूर्ण देश के अल्पसंख्यकों में सकारात्मक सन्देश गया। राजनैतिक रूप से बुरी तरह विभाजित केरल के समाज को भाजपा के पीछे एकजुट हो कर लामबंद करने की दिशा में भाजपा अध्यक्ष का यह प्रयास एक दूरगामी परिणाम देगा।
- श्री शाह ने हिन्दू धर्म गुरुवों के एक शिष्ट मंडल के साथ हुई विस्तृत चर्चा के दौरान उन पर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे आत्याचार और अन्य समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुनते हुए उन्हें भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा यथोचित मदद और संरक्षण का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रयास से केरल के हिन्दू वर्ग में निश्चित रूप से यह संदेश गया कि वामदल की सरकार से उनकी लड़ाई में वह अकेले नहीं है।
- केरल के पिछड़े समाज के कई प्रतिनिधि मंडलों ने श्री शाह से मुलाकात करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक मुद्दों से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विभिन्न मंचों पर रबर, जूट और मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों से चर्चा के दौरान उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों से अवगत कराया और उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दे कर पार्टी से जुड़ने के अनुरोध किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रयास से केरल का एक बड़ा वर्ग पार्टी से जुड़ा है जिसका राजनैतिक लाभ आने वाले दिनों में मिलने की पूरी संभावना बनी है।
- प्रदेश में कभी भी शासन में न रहने के कारण केरल के कार्यकर्ताओं के पास भाजपा द्वारा सीधे केरल के हित में किये गए कार्यों के बारे में आमजनता को बताने के लिए सिवाय केंद्र सरकारों के कामों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। परन्तु अपने इस दौर में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार द्वारा केरल सरकार को पिछले तीन सालों में डेढ़ लाख करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि देने की बात बहुत ही तार्किक और आंकड़ों के साथ कही। श्री अमित शाह द्वारा रखे गए इस तर्क ने निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक केरल की जनता से बात करने के लिए एक प्रभावी हथियार मिला है।
- इस प्रवास के दौरान श्री शाह ने केरल के बूथ से लेकर प्रदेश तक के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगन, परिश्रम और बूथ स्तर तक के नियोजन की चिंता देख कर, भाजपा कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से कठिन परिश्रम के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने की भावना का संचार हुआ।
- भाजपा अध्यक्ष ने एन.डी.ए. घटकों के साथ विस्तृत चर्चा करके उन्हें आश्वासन दिया कि मोर्चे के हर घटक की केरल फतह में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री शाह के इस प्रयास से एन.डी.ए. गठबंधन के सभी दलों में भाजपा के प्रति विश्वास और एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ।

आईटी, वेबसाईट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग

भारतीय जनता पार्टी ने संचार और संवाद के लिए युगानुकूल तकनीक एवं माध्यमों को अपनाया है। वर्तमान में जब सूचना और प्रद्योगिकी के क्षेत्र में संचार क्षेत्र ने व्यापक परिवर्तन किया है, ऐसे में भाजपा ने भी इसकी पूर्णता में उपयोगी मानते हुए आत्मसात किया है। पार्टी का “आईटी, वेबसाईट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग” इसी दायित्व का निर्वहन कर रहा है। पार्टी द्वारा संचालित इस विभाग का प्रमुख दायित्व है कि पार्टी एवं पार्टी-नीत सरकारों की गतिविधियों को त्वरित एवं सूचनात्मक रूप में सोशल मीडिया, वेबसाईट आदि के माध्यम से प्रसारित एवं प्रचारित किया जाए। आईटी, वेबसाईट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग के कार्यों एवं उद्देश्यों को निम्नवत समझा जा सकता है।

- पार्टी की राष्ट्रीय वेबसाईट, फेसबुक तथा फेसबुक पेज पर प्रकाशित होने वाली सामग्री की प्रस्तुति तथा उसके नियमित क्रियान्वयन को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था करना इस विभाग का प्रमुख दायित्व है।
- सोशल मीडिया के विविध मंचों पर पार्टी का प्रभाव बना रहे एवं पार्टी से संबंधित जानकारियाँ प्रसारित एवं प्रचारित होती रहें, इसकी समुचित एवं व्यवस्थित प्रणाली विकसित करना आईटी, वेबसाईट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग का प्रमुख दायित्व है।
- पार्टी से संबंधित दुष्प्रचारों का प्रभावी एवं तथ्यात्मक जवाब देने एवं गलत जानकारी को दुरुस्त करते हुए उसका प्रभावी काउंटर उपलब्ध कराने का दायित्व इस विभाग का है।
- तकनीकी संसाधनों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पार्टी की वेबसाईट अथवा सोशल मीडिया मंच पर प्रतिक्रिया एवं फीडबैक दे सके, इसके लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित करने और उसपर निगरानी रखने की समुचित व्यवस्था का दायित्व इस विभाग को दिया गया है।
- वीडियो के माध्यम से प्रचार सामग्री तैयार करने, सोशल मीडिया लाइव आदि की व्यवस्था करने एवं प्रमुख पत्रकार वार्ताओं का लाइव प्रसारण करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया है।
- पार्टी के प्रमुख नेताओं के सोशल मीडिया आदि की पहुँच सुदृढ़ करने एवं उचित परामर्श आदि देने का कार्य भी इस विभाग के दायित्वों के अंतर्गत आता है।
- साइबर सुरक्षा आदि को व्यवस्थित करने एवं हैकिंग आदि से पार्टी के वेब माध्यमों को बचाने से संबंधित कार्य भी पार्टी का यह विभाग करता है।

प्रशिक्षण विभाग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के विचार

पार्टी की विचारधारा और हमारी सरकारों के कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए जितना आवश्यक पारंपरिक मीडिया है उतना ही सोशल मीडिया भी है। सदस्यता आधार के साथ-साथ पार्टी की फेसबुक, ट्वीटर और व्हाट्सएप में मौजूदगी भी उसकी व्यापकता का प्रतीक है। इसलिए बिना सुसंगठित सोशल मीडिया के आज हम एक आधुनिक और सजग भाजपा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।



“जिस प्रकार से केरल भारतीय जनता पार्टी इकाई, पार्टी और पार्टी की विचारधारा के विस्तार के लिए अथक परिश्रम कर रही है, मुझे भरोसा है कि चार साल बाद केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।”

केरल प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के उद्बोधन के मुख्य बिंदु:

केरल में सच्चा स्वराज तब आयेगा जब केरल की जनता को एलडीएफ और यूडीएफ से निजात मिलेगी।

केरल के भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को अकेला न समझें, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केरल के हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं।

केरल में वामपंथी सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा का जवाब भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से और वोट के माध्यम से देगी। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिसने भी हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है, देश का कानून उन को कठोर से कठोर सजा दे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी।

यदि अगले विधान सभा चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि 2019 में केरल में लोक सभा चुनाव में राजग को बहुमत आए।

कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के समय जिसमें वामपंथी पार्टियां भी भागीदार थी, 14वें वित्त आयोग में केरल का सेन्ट्रल टैक्स में शेयर 33368 करोड़ रुपये का था, जबकि मोदी सरकार के 15वें वित्त आयोग में यह बढ़कर 98912 करोड़ रुपया हो गया है।

केरल में हाईवे निर्माण के लिए 64 हजार करोड़ रुपये, डीप वाटर सीपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और रेलवे के विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

आप लोगों ने बारी-बारी से केरल में कांग्रेस-नीत यूडीएफ और वामपंथी एलडीएफ को मौका दिया है लेकिन आज दुनिया से कम्युनिस्ट समाप्त हो चुका और देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है, आप एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिये।

जब-जब लेफ्ट पार्टी की सरकार आती है, तब-तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसात्मक हमले बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाता है। अधिक खतरनाक और शर्म की बात यह है कि अधिकतर हत्याएँ केरल के मुख्यमंत्री के स्वयं के विधान सभा क्षेत्र और जिले में हुई है।

Win over minorities, Shah tells Kerala BJP

'केरल में भाजपा को हिंसा करके नहीं रोक सकते'

BJP PRESIDENT ENDS 3-DAY VISIT TO STATE

Amit Shah Slams Kerala Govt for Killings of BJP, Sangh Workers

Says tough to work for a party like BJP but it will only emerge stronger from these setbacks

Violence against BJP will make more lotuses bloom in Kerala: Shah

Work 24x7, Amit Shah tells leaders

V RAVINDRANATHAN NAIR @TPuram

office-bearers attended by state core com

Amit Shah to arrive on two-day visit to city

EXPRESS NEWS SERVICE

on Saturday | MANOR HAVELL

Prepare action plan for attracting minorities

Rousing reception to Amit Shah

EXPRESS NEWS SERVICE @TPuram

BJP national president Amit Shah

Nirmalan, Balarampuram Surendran and Somasekharan Nair. Party workers on 3,000 two-

the Ayyankali statue. the party workers assem from a specially set up



₹1.5 lakh cr given to Kerala in 3 yrs, says Amit Shah

He asked Malavalees to board the

Closed-door sessions dot Shah's itinerary

CHANDRAKANTH VISWANATH @Kochi

AMIT SHAH'S MEETINGS IN KOCHI ON FRIDAY

Amit Shah calls upon partymen to form next govt in Kerala

Says party workers in other states like Uttar Pradesh can take a break for the time being. The workers in Kerala expect until the mission is accomplished.

in the po... ers. A r... Sangh... ategy, media and oth... e top brass of th... (leaked on t...

Business community hails meet with Amit Shah

(Continued from Page 1)

EXPRESS NEWS SERVICE @Kochi

BJP PRESIDENT Amit Shah's

केरल में भाजपा की प्रगति को हिंसा से नहीं रोका जा सकता - अमित शाह

Mission possible? Shah chats up Church, corporate leaders

EXPRESS NEWS SERVICE @Kochi

Amit Shah on a three-day state tour

EXPRESS NEWS SERVICE @TPuram

Party national secretary H Raja and national joint organising secretary BL Santosh will also attend. Shah will be accompanied by oth...

AMIDST the ongoing controversy over restric...

